



ELECTION 2020

Call:
1-888-API-VOTE
(274-8683)

Bilingual assistance is available in English, Mandarin (普通话/普通话),
Cantonese (廣東話/广东话), Korean (한국어), Vietnamese (Tiếng Việt),
Tagalog, Urdu (اردو), Hindi (हिन्दी), and Bengali (বাংলা).



क्या मेरा मत गिना गया है?

मतदान के बाद आपको क्या करना! ?!

कभी-कभी आपका मतपत्र नहीं भी गिना जा सकता है। मतपत्र की गणना मतदान दिवस के बाद के दिनों में की जाती है इसीलिए आपका मतपत्र यदि किसी कारण से गिना नहीं गया है तो आपके पास उसे सुधार कराने का समय मिल सकता है। आपके मत को गिना जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ दिया गया है।

मतदान दिवस मंगलवार को है, 3 नवंबर, 2020

डाक/ दूरस्थ मतदान

1. यह सुनिश्चित करने के लिए की आपका मत गिना गया है, अपने डाक/ दूरस्थ मतपत्र को ट्रैक करें। आप प्रत्येक राज्य के ट्रैकिंग की जानकारी www.ballotready.org वेबसाइट पर पा सकते हैं।
 - a. यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो हॉटलाइन **1-888-API-VOTE** (1-888-274-8683) पर फोन करें। सहायता अंग्रेजी, बंगाली, कॅटोनीज़, हिन्दी, कोरियाई, मंदरियन, ताग्लोग, वियतनामी और उर्दू में प्रदान की जाती है।
 - b. **पूर्व से ट्रैक करना प्रारंभ करें** – किसी समस्या-सुधार के लिए प्रायः सीमित समय होता है।
2. यदि आपका डाक/ दूरस्थ मतपत्र नहीं गिना जाता है:
 - a. एक डाक/ दूरस्थ मतपत्र के नहीं गिने जाने के आम कारण हैं:
 - i. **हस्ताक्षर मिलान** – आपके डाक/ दूरस्थ मतपत्र पर किया गया हस्ताक्षर सरकार के पास आपके लिए रिकॉर्ड में हस्ताक्षर से मिलान न होना।
 - ii. **दिशनिर्देशों का पूर्ण या सही तरीके से अनुपालन में विफल होना।**
 - iii. **अपने पहचान की प्रति को शामिल करने में विफल होना।**
 - b. क्या आप अपने दूरस्थ/डाक मतपत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यह जानने के लिए हॉटलाइन **1-888-API-VOTE** (1-888-274-8683) पर फोन करें। सहायता अंग्रेजी, बंगाली, कॅटोनीज़, हिन्दी, कोरियाई, मंदरियन, ताग्लोग, वियतनामी और उर्दू में प्रदान की जाती है।

तत्कालिक मतपत्रों

1. यदि आपने तत्कालिक मतपत्र द्वारा मतदान किया है तो आपके स्थानीय अथवा राज्य सरकार ने आपको सूचना प्रदान की होगी कि कैसे आप आपके द्वारा डाले गए मत गिने गए हैं या नहीं, इसका पता कर सकते हैं।
2. यदि आपने तत्कालिक मतपत्र से मतदान किया है और आपका मतपत्र गिना नहीं गया है तो आप कुछ मामलों में इसे गिने जाने के लिए कदम उठा सकते हैं:
 - a. एक तत्कालिक मतपत्र क्यों गिना नहीं जाता, इसके आम कारण हैं:
 - i. **मतदाता का पंजीकरण** – यदि आपको लगता है कि आप मतदान के लिए पंजीकृत हैं परन्तु अपने मतदान केंद्र के मतदाता सूची में अनुपलब्ध हैं तो शायद आपके मतदाता पंजीकरण में कुछ समस्या हो सकती है, जिसे आप अपने स्थानीय मतदान अधिकारी से सही करवा सकते हैं।
 - ii. **पहचान** – यदि आप मतदान केंद्र पर उचित पहचान पत्र लाना भूल गए तो कुछ मामलों में आप इसकी जानकारी अपने मतदान अधिकारी को दे सकते हैं।
 - iii. **हस्ताक्षर मिलान** – यदि आपका हस्ताक्षर आपके मतदान के सूची के अभिलेख में हस्ताक्षर से मिलान नहीं होता तो आप मतदान के बाद मतदान अधिकारी से इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठा सकेंगे।
 - b. इन समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित समय हो सकता है। सहायता कैसे प्रदान की जाती है, यह जानने के लिए हॉटलाइन **1-888-API-VOTE** (1-888-2748683) पर फोन करें। सहायता अंग्रेजी, बंगाली, कॅटोनीज़, हिन्दी, कोरियाई, मंदरियन, ताग्लोग, वियतनामी और उर्दू में प्रदान की जाती है।

अधिक जानकारी चाहते हैं? हमारे मतदान के संसाधनों को www.advancingjustice-aaajc.org/election2020 वेबसाइट पर देखें।